

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 28.03.2021

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

नकबजनी एवं हत्या के प्रयास में वांछित 25 हजार का ईनामी अन्तर्राज्यीय चोरो के गैंग का फरार अभियुक्त शमशाद पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, चोरी के आभूषण, नगदी एवं अवैध असलहा बरामद ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार में श्री संजीव कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे आपरेशन पाताल के दौरान थाना तिलहर को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 27/28.03.21 की देर रात्रि को हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व में गठित थाना तिलहर पुलिस टीम थाना मुखबिर की सूचना पर थाना तिलहर के मु0अ0स0 95/2021 धारा 454/380/411 भादवि, मु0अ0स0 101/2021 धारा 457/380/411 भादवि एवं मु0अ0स0 123/2021 धारा 380/411 भादवि तथा मु0अ0स0 142/21 धारा 307/401 भादवि में वांछित 25 हजार का ईनामी अन्तर्राज्यीय चोरो के गैंग का फरार अभियुक्त शमशाद उर्फ शमशू उर्फ फड्डल पुत्र निजाम निवासी मो0 छितरा बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी मो0 शहीदनगर कस्बा व थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को **पुलिस मुठभेड के बाद नेशनल हाईवे सरयू पुलिया कस्बा तिलहर के पास से गिरफ्तार किया गया ।** अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण, नगदी एवं अवैध असलहा बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पर मु0अ0स0 198/21 धारा 307/420 भादवि तथा मु0अ0स0 199/21 धारा 3/25/27 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त बहुत ही शातिर है । अभियुक्त व उसके गैंग द्वारा जनपद शाहजहाँपुर व अन्य राज्यों में भी चोरी की घटनाओं, हत्या का प्रयास जैसी जघन्य अपराधों को अंजाम दिया गया है । उक्त गैंग के सदस्य अपने साथ अवैध असलहा भी रखते थे जिससे जनता में भय व्याप्त था । इस गैंग के द्वारा दिनांक 15.02.2021 को दिन में वरुण अर्जुन मेडिकल कालेज में डा0 निलेश दोषी पुत्र स्व0 श्री रमणलाल दोषी निवासी वरुण अर्जुन मेडिकल कालेज क्वार्ट नं0 1 ब्लॉक A बंधरा थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर जिसके सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अपराध सं0 95/2021 धारा 380/454 भादवि पंजीकृत है व दिनांक 18.02.2021 को सन्नी गुप्ता पुत्र श्री नरेशचन्द्र गुप्ता नि0मो0 दातागंज कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर के मकान में रात्रि में जिसके सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अपराध सं0 101/2021 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत है तथा दिनांक 25.02.2021 को जमील अहमद पुत्र मंसूर अहमद नि0मो0 मौजमपुर कस्बा व थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर रात्रि में चोरी की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना तिलहर पर अपराध सं0 पंजीकृत है । इसके गैंग के सदस्यों को पूर्व में जेल भेजा जा चुका है । **गिरफ्तार अभियुक्त कई दिनों से फरार चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा 25000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।**

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. शमशाद उर्फ शमशू उर्फ फड्डल पुत्र निजाम निवासी मो0 छितरा बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी मो0 शहीदनगर कस्बा व थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त शमशाद उर्फ शमशू उर्फ फड्डल ने पूछताछ पर बताया कि जब मैं 7-8 साल का था मेरे पिता निजाम की मृत्यु हो गयी थी तो मेरी माँ श्रीमती हजरा से मुल्ला शकील ने निकाह कर लिया था उसकी और कई बीबीयाँ है वह चोरो का गैंग चलाता है मेरे सौतेले पिता मुल्ला शकील पिछले 20-25 वर्षों से चोरीयाँ कर रहा हैं अब तक उसने सैकड़ों चोरियाँ की होगी । कुछ ही चोरियों में पकडा गया हैं । हम सभी मिलकर सुबह 6 बजे के लगभग कार एवं स्कूटी से निकल जाते हैं और जब शहरों में लोग अपने मकानों से 10 बजे ऑफिस एवं काम पर चले जाते हैं जिन घरों के ताले बन्द होते हैं। हम दो लोग स्कूटी से बन्द कालोनी एवं फ्लैट में अन्दर चले जाते हैं और 5-7 मिनट के अन्दर बाहर का ताला तोडकर अन्दर रखी सैफ/अलमारी के ताले उखाडकर मकान से केवल जेबर व नगदी चोरी कर लेते हैं । हम अन्य किसी सामान को नहीं चुराते हैं। स्कूटी से अच्छे कपडे पहनकर अन्दर जाने में

कालोनी के गार्ड लोकल समझकर रोकते नहीं बन्द कालोनीयो में अन्दर जाना आसान होता है। बाकी दो आदमी गाडी में बैठकर नजर रखते है। ऐसे ही दिन में स्कूटी से मोहल्ले में घूमकर मकान में घूसने निकलने का रास्ता देखकर जिनमें आसानी से घुस व निकल सकते है चिन्हित कर लेते है तथा रात्रि के समय उन मकानो में दो आदमी अन्दर घुस जाते है बाकी बाहर गाडी में इन्तेजार करते है। हमारे साथी मैनुउद्दीन उर्फ मीनू ने अब से करीब तीन वर्ष पहले रोडवेज बस से लखनऊ में तारिख पर जाते समय रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज को देखा था तभी इसमें अच्छे मकान व बिल्डिंग अच्छी होने के कारण अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ अच्छे पैसे वाले लोग रहते है। इसमें चोरी करने पर अच्छा खासा जेबर नकदी मिल सकता है। उसने यह बात मेरे सौतेले पिता मुल्ला शकील को बताया थी इसी लिए हमने गाजियाबाद मेरठ से उस दिन स्कूटी एवं कार से रोहेलखण्ड मेडिकल कालेज आये थे यहाँ आकर हमने स्कूटी की दुसरी नम्बर प्लैट बरेली का नम्बर UP 25 TX 1377 की बनबाकर स्कूटी पर लगा थी ताकि मेडिकल कालेज मे घुसते समय लोग हमे लोकल समझे चोरी करने के बाद नम्बर प्लेट बदल दी थी।

अब से पहले मेरे सौतेले पिता मुल्ला शकील व उसके साथी दिल्ली के थाना मडाली में वर्ष 1998 में, न्यू अशोक नगर दिल्ली में वर्ष 2003 में, सरिता बिहार दिल्ली में वर्ष 2004 में, थाना मेडिकल मेरठ में वर्ष 2010 में, थाना इन्दरपुरम गाजियाबाद में वर्ष 2011 में व थाना उस्मानपुर दिल्ली में वर्ष 2013 में, थाना मोदीनगर गाजियाबाद में वर्ष 2018 में चोरियो में जेल गये है तथा थाना भोजपुर गाजियाबाद में वर्ष 2002 में गोकसी में और गोकुलपुरी दिल्ली में वर्ष 2007 में हत्या में जेल गये है। अभियुक्त मैनुउद्दीन लखनऊ से धारा 414 भादवि के मुकदमा में जेल गया है। मैं अब से पहले दिल्ली के दो मुकदमो मे जेल गया हूँ तिहाड़ जेल मे बंद रहा हूँ मेरे सोतेले पिता मुल्ला शकील तथा इरशाद नासिक महाराष्ट्र मे भी फ्लैट मे चोरी के करीब 8 मुकदमो मे जेल गये है। मैं भी नासिक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था कई महीने नासिक जेल मे बंद रहा था। नासिक से इनका आपराधिक इतिहास पता कराया जा रहा है।

बरामदगी विवरण:-

1. 02 अदद कंगन पीली धातु
2. 02 अदद अंगूठी पीली धातु
3. 06 अदद कान के कुण्डल की चैन पीली धातु
4. चोरी के माल मे से हिस्से मे आये रुपये मे से बचे 1,000 रुपये नकद
5. 01 पैन कार्ड वादी मुकदमा डा0 निलेश दोषी पुत्र स्व0 श्री रमणलाल दोषी मेडिकल कालेज
6. 01 नम्बर प्लैट UP25TX1377
7. 01 अदद पिट्टू बैग रंग आसमानी व स्लैटी
8. 01 अदद तमन्चा 315 बोर
9. 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस
10. पुराने इस्तेमाली कपडे

आपराधिक इतिहास:-

1-शमशाद उर्फ शमशू उर्फ फड्डल पुत्र निजाम निवासी मो0 छितरा बस्ती कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद हाल निवासी मो0 शहीदनगर कस्बा व थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

- 1.मु0अ0सं0 95/21 धारा 454, 380,411 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 2.मु0अ0सं0 101/21 धारा457, 380,411 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 3.मु0अ0सं0 123/21 धारा 380,411 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- 4.मु0अ0सं0 142/21 धारा 307/401 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
5. मु0अ0सं0 116/21 धारा 457,380,411 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
6. मु0अ0सं0 /18 धारा 380,411 भादवि थाना आरकेपुरम दिल्ली
7. मु0अ0सं0 /18 धारा 380,411 भादवि थाना आरकेपुरम दिल्ली

8. मु0अ0स0 198/21 धारा 307/420 भादवि थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
 9. मु0अ0स0 199/21 धारा 3/25/27 आम्स एक्ट थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
- नोट:- इसके अतिरिक्त नासिक मे पंजीकृत अभियोगो का विवरण ज्ञात किया जा रहा है।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 पवन कुमार पाण्डेय थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 अमित चौहान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 महेश सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
5. उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
6. उ0नि0 सुधीर सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
7. हे0का0 35 अब्दुल कामिल थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
8. हे0का0 105 अमानत हुसैन थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 1747 यतेन्द्र चौहान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 2128 सनी कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
11. का0 1326 कर्मवीर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
12. का0 2257 रोहित सांगवान थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर